

Map Showing Mine Site & Surrounding Features

Prepared by

**EMTRC Consultants Private Limited**

(MoEF Recognized Laboratory, NABET Accredited, ISO 9001, OHSAS 18001)  
P-501, Anupam Apartments, East Arjun Nagar, Delhi 32  
Website [www.emtrc.com](http://www.emtrc.com), email: [emtrcjkm@gmail.com](mailto:emtrcjkm@gmail.com), [moitra@emtrc.com](mailto:moitra@emtrc.com)

## संक्षिप्त पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट

नन्दनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान का क्षमता विस्तार  
(0.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.03 मिलियन टन प्रतिवर्ष )  
(खनन पट्टा क्षेत्र- 53.57 हेक्टेयर)

ग्राम - नन्दनी खुन्दिनी, तहसील-धमथा  
(जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़)

प्रस्तुतकर्ता

ए.सी.सी. लिमिटेड  
सितम्बर-2014

## अन्तवस्तु

### पेज संख्याँ

1.	परियोजना वर्णन	3
2.	पर्यावरण विवरण	5
3.	अनुमानित पर्यावरणीय समाधात और न्यूनीकरण उपाय	7
4.	पर्यावरण प्रबोधन योजना	10
5.	अतिरिक्त अध्ययन	11
6.	परियोजना के फायदे	11
7.	पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना	12

## 1.0 परियोजना विवरण-

ए.सी.सी. लिमिटेड (ACC) भारत की सीमेंट बनाने वाली सबसे पुरानी कम्पनी है, जिसकी स्थापना सन 1936 में की गयी। ए.सी.सी. लिमिटेड ने सन 1965 में जामुल, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में जामुल सीमेंट वर्क्स नाम से सीमेंट प्लांट की स्थापना की। ए.सी.सी. लिमिटेड की जामुल सीमेंट वर्क्स इकाई द्वारा सन 1965 में सीमेंट उत्पादन आरम्भ किया गया, जिसकी सीमेंट उत्पादन क्षमता 0.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। वर्तमान में जामुल सीमेंट वर्क्स की किलंकर उत्पादन क्षमता 0.76 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में जामुल सीमेंट प्लांट की पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट उत्पादन क्षमता 1.58 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। स्लैग एक स्टील प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट है, जिसका सीमेंट निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जामुल सीमेंट वर्क्स द्वारा किलंकर उत्पादन को 0.76 से 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये ए.सी.सी. ने पर्यावरण एंव वन मंत्रालय (भारत सरकार) से पत्र संख्या J 11011/251/2008/IA-II (I) में इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

ए.सी.सी. जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में तीन चूनापत्थर खदानों (जामुल सीमेंट वर्क्स चूनापत्थर खदान, पथरिया । एंव ॥ चूनापत्थर खदान) का संचालन कर रहा है। चौथी नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान है, जिससे अभी खनन कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

प्रस्तावित 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष किलंकर उत्पादन के लिये आवश्यक अतिरिक्त चूनापत्थर की आपूर्ति आंशिक रूप से जामुल सीमेंट वर्क्स चूनापत्थर खदान, पथरिया । एंव ॥ चूनापत्थर खदान तथा नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान से की जायेगी। इसके लिये ए.सी.सी. लिमिटेड ने नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान की उत्पादन क्षमता को 0.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.03 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान से 0.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष चूनापत्थर उत्पादन के लिये ए.सी.सी. को पर्यावरण एंव वन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा 10 मार्च 2011 को पत्र संख्या J 11015/237/2009/IA-II (I) में पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है।

नन्दिनी खुन्दिनी खदान का चूनापत्थर उच्च गुणवत्ता का है, जिसको जामुल चूनापत्थर खदान के निम्न गुणवत्ता के चूनापत्थर के साथ मिलाकर प्रस्तावित 1500 टन प्रतिदिन क्षशर (जो कि जामुल सीमेंट वर्क्स चूनापत्थर खदान में स्थापित किया जायेगा) में चूरा कर, बन्द बेल्ट कन्वेयर द्वारा किलंकर उत्पादन के लिये जामुल सीमेंट वर्क्स में भेजा जायेगा। जामुल सीमेंट वर्क्स जामुल खदान से लगभग 3 किमी. की दूरी पर स्थित है।

ए.सी.सी. ने नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान जिसका कुल खनन पटटा क्षेत्र 53.57 ha है, के लिये सरकार से आवेदन किया था। इससे पहले नन्दिनी खुन्दिनी खनन पटटा सन 1971 से 1991 तक भिलाई स्टील प्लांट के पास था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 फरवरी 2008 को पत्र संख्या F 3-18/2004 में नन्दिनी खुन्दिनी खनन पटटा को ए.सी.सी. को आवंटित किया है।

प्रस्तावित खदान विस्तार ई. आई. ए. अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के श्रेणी ए क्रमांक 1 (ए) के अन्तर्गत आती है। प्रस्तावित खदान विस्तार के पर्यावरणीय समाधात निर्धारण अध्ययन के लिए पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय (भारत सरकार) द्वारा 9 जनवरी 2014 को पत्र संख्या J.11011/322/2010-IA-II(I) में परियोजना का कृत्य (Terms of Reference) जारी किया गया। यह ड्राफ्ट ई०आई०ए० रिपोर्ट टी.ओ.आर. के अनुरूप जन सुनवाई के लिए तैयार की गयी है।

नन्दिनी खुन्दिनी चूनापथर खदान ग्राम नन्दिनी खुन्दिनी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थापित है, जिसका कुल खनन पट्टा क्षेत्र 53.57 ha है। प्रस्तावित खदान का विस्तार विद्यमान खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर किया जायेगा, जिसके लिये अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। इसमें कोई पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन सामिल नहीं है।

**स्थल:-** नन्दिनी खुन्दिनी चूनापथर खदान समतल भूमि में स्थित है। जामुल सीमेंट वर्क्स, नन्दिनी खुन्दिनी चूनापथर खदान से लगभग 15 किमी. की हवाई दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। नन्दिनी खुन्दिनी चूनापथर खदान जामुल सीमेंट वर्क्स से भिलाई-धमधा राज्य मार्ग से जुड़ा है। नन्दिनी खुन्दिनी चूनापथर खदान दुर्ग रेलवे स्टेशन से लगभग 21 किमी. की दूरी पर स्थित है। मुबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग सं-6 भिलाई शहर से होकर गुजरता है, जो प्रस्तावित खदान से लगभग किमी. 20 की दूर पर स्थित है। नजदीकी एयरपोर्ट रायपुर है, जो प्रस्तावित खदान से 70 किमी. की दूर पर स्थित है।

प्रस्तावित खदान के 10 किमी. परिधि के अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय उधान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, वेट लैण्ड एवं ऐतिहासिक धरोहर मौजूद नहीं है। प्रस्तावित खदान के 10 किमी. परिधि के अन्तर्गत कोई आरक्षित एवं संरक्षित वन नहीं है। शिवनाथ नदी एवं अमनेर नदी सतही जल के मुख्य स्रोत है। शिवनाथ नदी खदान की परिधि से लगभग 3.5 किमी. की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। अमनेर नदी खदान की परिधि से 6.5 किमी. की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके अलावा इस क्षेत्र में तान्दुला नहर एवं इसकी साखाये सतही जल के अन्य स्रोत हैं। तान्दुला नहर खदान की सीमा से 3.6 किमी. की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है।

**परियोजना की लागत:-** इस परियोजना की अनुमानित लागत 15 करोड़ रु. है।

**रोजगार:-** इस परियोजना से प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 32 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त चूनापथर परिवहन के लिये लगभग 100 वाहन चालकों को रोजगार उपलब्ध होगा।

**जल की आवश्यकता:-** इस परियोजना के लिये प्रतिदिन 20 किलोलीटर जल की आवश्यकता होगी। जिसकी आपुर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में मौजूद गढ़ो में एकत्रित वर्षा जल से की जायेगी। इस परियोजना में भूजल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

**विद्युत की आवश्यकता:-** प्रस्तावित खदान संचालन के लिए प्रतिवर्ष २ लाख युनिट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसकी आपुर्ति राज्य विद्युत बोर्ड से की जाएगी।

**खनन पद्धति:-** ACC द्वारा यात्रिक खनन (Mechanized Mining) किया जायेगा जिसमें शोवेल एंव टिप्पलर का उपयोग किया जायेगा। इस खदान में ड्रिल, हाईड्रालिक राक ब्रेकर, हाईड्रालिक एक्सेकेवेटर एंव डम्पर ट्रक उपयोग में लाये जायेगे। इसमें Non Electric Delay Detonator ब्लास्टिंग की जायेगी। Bore hole की गहराई 7-9 मी. एंव व्यास 115 मीमी. होगा। दो Bore hole के बीच की दूरी 3-5.5 मी. होगी। ब्लास्टिंग सप्ताह में एक दिन एंव दोपहर के समय की जायेगी। खदान में बेंच की उचाई 7 मी. एंव बेंच की चौड़ाई 20 मी. रखी जायेगी। खदान की सतह से गहराई 30 मी. एंव पिट का स्लोप  $45^\circ$  से  $60^\circ$  होगा। खदान से निकले मलवे (overburden) को खदान की सीमा में dump बनाकर रखा जायेगा। इसकी (Dump) ऊंचाई 3 मी. रखी जायेगी। इस खदान में लगभग 43.74 मिलियन टन चूनापत्थर के भण्डार है। इस खदान के पुरे जीवनकाल में लगभग 6.5 मिलियन टन मलवा (overburden) निकलेगा। इस मलवे (overburden) को खदान भराव में उपयोग किया जायेगा। नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान में विस्फोटक संग्रहण, डीजल संग्रहण, वर्कशाप, माल संग्रहण क्षेत्र, प्रशासनिक भवन एंव डीजल फिलिंग स्टेशन इत्यादि की स्थापना नहीं की जायेगी। ये सभी सुविधाये पथरिया-I खदान में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान में भी किया जायेगा।

## 2 पर्यावरण विवरण

परियोजना स्थल की अधारभूत पर्यावरणीय परिस्थितिकी की जानकारी 1 मार्च 2014 से 31 मई 2014 के दौरान एकत्रित की गयी। खदान के 10 किमी. क्षेत्र को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इन ऑकड़ों का एकत्रीकरण पर्यावरण एंव वन मंत्रालय (भारत सरकार) एंव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मान्यता प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत किया गया है।

मौसम सम्बन्धी ऑकडे जैसे हवा की गति, दिशा, सापेक्षित आर्दता एंव तापमान की जानकारी एकत्रित करने के लिए परियोजना स्थल के नजदीक नन्दिनी नगर में मेट स्टेशन स्थापित किया गया। परिवेशीय वायु गुणवत्ता का 8 स्थानों पर मापन किया गया। ध्वनि गुणवत्ता का परियोजना स्थल में 8 स्थानों पर मापन किया गया। सतहीं जल के 4 एंव भू-जल के 8 नमूनों का विषलेशण किया गया। मृदा गुणवत्ता का विषलेशण 8 विभिन्न स्थानों पर किया गया। अध्ययन क्षेत्र में पार्यी जाने वाली वनस्पति एंव प्राणियों से सम्बन्धित ऑकडे प्रकाशित दस्तावेज से एकत्र किये गये और क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जॉचे गये। भू-उपयोग, जनसंख्या, व्यवसाय एंव खेतीबाड़ी से सम्बन्धित ऑकडे जिला सांख्याकीय पुस्तिका एंव प्राथमिक जनगणना सार 2011 से लिये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र भूकम्प जोन-II के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र का चूना पत्थर Lower Vindhyan age का है।

**जलवायु एंव सूक्ष्म पर्यावरण:-** ऐतिहासिक मौसम से सम्बन्धी आँकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रायपुर से लिये गये हैं। प्रभावी वायु दिशा दक्षिण पश्चिम एंव दक्षिण (SW & W) से पायी गयी। औसत वायु गति 0.5 से 8.8 मी. प्रति सेकन्ड पायी गयी। दैनिक तापमान 19.8 से 44.6 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया गया। सापेक्षिक आद्रता 20 से 54 प्रतिशत के बीच पायी गयी। अध्ययन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 1288 मिमी. है।

**वायु गुणवत्ता:-** अध्ययन क्षेत्र में PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, बेन्जीन, ओजोन, अमोनिया, कार्बन मोनो ऑक्साइड एंव PM<sub>10</sub> में Benzo (a) Pyrene, आर्सेनिक, निकल, लैड एंव सिलिका के स्तर को 8 स्थानों पर मापा गया। मापन स्थल का चयन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत किया गया। मापन स्थल परियोजना के up wind एंव down wind दिशा में स्थिरपित किये गये। अध्ययन क्षेत्र के सभी जॉच स्थलों की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अन्तर्गत पायी गयी।

**ध्वनि गुणवत्ता:-** अध्ययन क्षेत्र में ध्वनि का स्तर मापन 8 स्थानों पर किया गया। अध्ययन क्षेत्र में सभी जॉच स्थलों की ध्वनि गुणवत्ता राष्ट्रीय आवासीय, व्यावसायिक एंव औद्योगिक ध्वनि गुणवत्ता मानक स्तर के अन्तर्गत पायी गयी।

**जल गुणवत्ता:-** सतही जल के 4 एंव भूमिगत जल के 8 नमूनों का रासायनिक एंव जैविक परीक्षण किया गया। सतही जल के नमूने शिवनाथ नदी, अमनेर नदी एंव धमधा डैम के up stream एंव down stream से लिये गये। शिवनाथ नदी, अमनेर नदी एंव धमधा डैम के सतही जल की गुणवत्ता CPCB के निर्दिष्ट प्रयोजन मापदण्डों के अन्तर्गत पायी गयी। सतही जल की गुणवत्ता सिंचाई एंव औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है। भूमिगत जल के नमूने आस.पास के गांवों के हैण्ड पम्प एंव बोरवैल से लिये गये। अध्ययन क्षेत्र में भूमिगत जल के नमूनों की गुणवत्ता सन्तोषजनक पायी गयी। भूमिगत जल की गुणवत्ता BIS 10500 मापदण्डों के अन्तर्गत पायी गयी।

**मृदा गुणवत्ता:-** अध्ययन क्षेत्र से 8 स्थानों पर मृदा गुणवत्ता जॉची गयी। अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी बलुई-दोमट प्रकार की है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, नाईट्रोजन, पोटेशियम एंव फास्फोरस सामान्य मात्रा में पाये गये। मृदा की पी. एच. एवं चालकता मानक सीमा में पायी गयी।

**भू उपयोग:-** अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी. परिधि के अन्तर्गत कोई आरक्षित एंव संरक्षित वन नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में 60.2 प्रतिशत कृषि भूमि, 5.4 प्रतिशत भूमि जल के अन्तर्गत, 6.7 प्रतिशत आवाशीय भूमि तथा बाकी भूमि अन्य उपयोग में है। धान अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसल है। गेहूं, मक्का, सब्जी एंव दालें अध्ययन क्षेत्र की अन्य फसले हैं।

**संवेदनशील पारिस्थितिकी तत्रः-** प्रस्तावित खदान की 10 किमी. के परिधीय क्षेत्र में कोई संवेदनशील पारिस्थितिकी तत्रं जैसे जैव मण्डल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव आभ्यारण, वेट लैण्ड, टाइगर

एंव हाथी रिंजव इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित खदान की 10 किमी. के परिधीय क्षेत्र में आरक्षित एंव संरक्षित बन नहीं है।

**सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति:-** प्रस्तावित खदान ग्राम नन्दिनी खुन्दिनी, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित है। खदान के 10 किमी. का क्षेत्र जिला-दुर्ग के धमधा एंव दुर्ग तहसील के अन्तर्गत आता है। खदान के 10 किमी. की परिधि में 59 गॉव एंव दो नगर पंचायत आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1114455 है। जिसमें से 57257 पुरुष एंव 57198 महिलाएं हैं। अध्ययन क्षेत्र का स्त्री-पुरुष अनुपात 999 स्त्री प्रति हजार पुरुष है। अध्ययन क्षेत्र में 18.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 6.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।

### 3 अनुमानित पर्यावरणीय समाधात और रोकथाम उपाय

**जल पर्यावरण :-**खनन पट्टा क्षेत्र में मौजूद गढ़ो में एकत्रित वर्षा जल का उपयोग धूल निर्मूलीकरण, जल छिड़काव एंव बागवानी में उपयोग किया जायेगा।

**रोकथाम के उपाय:-**वर्षा के दौरान सतही जल को नालों की सहायता से खदान क्षेत्र में स्थित गढ़ो (Mined Out Pit) में वर्षा जल संग्रहण किया जायेगा। Over Burden dump के चारों ओर नाली बनाई जायेगी, जिसमें उचित अन्तराल पर सेडिमेन्टेसन पिट लगाये जायेंगे। Over burden dump से निकलने वाले वर्षा जल को Beffel Plates फिल्टर से पास कराया जायेगा, ताकि पानी के साथ सिल्ट के बहाव को रोका जा सके। मलबे के ढेर (OB dump) को अच्छी तरह से दबाकर इसमें मृदा डाल कर पेड़ पौधे लगाये जायेंगे। इससे भू क्षरण एंव सिल्ट को बहने से रोका जा सकेगा। घरेलू अपशिष्ठ जल को सेप्टिक टैंक में उपचारित कर सोक पिट में निपटान किया जायेगा। खदान परिसर में एकत्रित जल की नियमित जांच की जायेगी। वर्कशेप मशीनों एंव वाहनों से निकलने वाले स्पैन्ट ऑयल एंव लुब्रीकेन्ट को पुर्णचक्रण के लिए CPCB/SPCB से पंजीकृत पुर्ण चक्रणकर्ता को भेजा जायेगा। खदान परिसर के बाहर कोई अपशिष्ठ जल का निस्त्राव नहीं किया जायेगा।

**वायु पर्यावरण:-**खदान संचालन जैसे ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, वाहनों की आवाजाही, लोडिंग एंव अनलोडिंग से धूल उत्सर्जित होगी।

**रोकथाम के उपाय:-**खदान परिसर में वाहनों के आवागमन के लिए स्थाई सड़कों का निर्माण किया जायेगा। हाल रोड से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए नियमित जल छिड़काव किया जायेगा। खदान में उपयोग आने वाली सभी मशीनों एंव उपकरणों की नियमित मरम्मत की जायेगी। खदान में वेट ड्रिलिंग एंव कन्वोल्ड ब्लास्टिंग (NONEL तकनीकी का उपयोग) की जायेगी। खदान के पूर्व दिशा (नन्दिनी खुन्दिनी गॉव की तरफ) में 30 मी. चौड़ी हरित पट्टी का विकास किया जायेगा। जिसमें पहले 15 मी. में छोटी झाड़ीयाँ जैसे बोगनविलिया, कनेर, लैन्टाना, अठूसा, बेर, केजूराइना इत्यादि प्राजॉतियाँ लगाई जायेगी एंव अगले 15 मी. में बड़े पेड़ जैसे शीशम, सिरिस, गुलमोहर, अमलतास, मुंगा, पीपल, जामुन, नीम, कदंब एंव आम इत्यादि प्राजॉतियाँ लगाई जायेगी।

**ध्वनि पर्यावरण:-** खदान क्षेत्र मे ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, वाहनों की आवाजाही, लोडिंग एंव अनलोडिंग ध्वनि उत्सर्जन के मुख्य स्रोत है।

**रोकथाम के उपाय:-** वाहनों की आवाजाही के दौरान होने वाली ध्वनि को कम करने के लिए नियमित व्यवस्था सारणी बनाई जायेगी। भारी वाहनों एंव मशीनों के रखरखाव का कार्य नियमित किया जायेगा। भूमि कम्पन को कम करने के लिए Nonelectric Delay Detonator का उपयोग किया जायेगा। अधिक ध्वनि वाले स्थानों पर कार्य करने वाले मजदूरों को ईयर प्लग एंव ईयर मफ (Ear Plugs and Ear muffs) दिये जायेगे। खदान मे खनन कार्य केवल दिन के समय किया जायेगा। इन सभी तरीकों को अपनाकर खदान परिसर की सीमा मे ध्वनि का स्तर दिन मे 75 dB(A) एंव रात मे 70 dB(A) की राष्ट्रीय ध्वनि गुणवत्ता मानक सीमा में रहेगा।

**भू पर्यावरण:-** मलवे (overburden) को खदान की दक्षिण सीमा मे बन्ध (Bund) बना कर रखा जायेगा। इस बन्ध की उचाई 3 मी. होगी। इस बन्ध का स्लोप 60° से कम होगा। इस बन्ध मे सीढ़ी नुमा Trench दिये जायेगे। इस बन्ध को दबाकर 8 से 10 सेमी. मोटी मृदा (Top soil) डालकर कर पेड पौधे लगाये जायेगे। इस बन्ध के चारों ओर नालियों का निर्माण कर सेडिमेन्टेश पिट एंव जूट फिल्टर लगाये जायेगे। Over burden dump से निकलने वाले वर्षा जल को Beffel Plates फिल्टर से पास कराया जायेगा, ताकि पानी के साथ सिल्ट के बहाव को रोका जा सके। Used oil and Greases को पुर्नचक्रण के लिए पूंजीकृत पुर्नचक्रण कर्ता को भेजा जायेगा। आर्गेनिक एंव हरित अपशिष्ट को कम्पोस्ट पिट मे डाला जायेगा। खदान मे प्लास्टिक का उपयोग वर्जित होगा। चूनापत्थर उत्खनन के बाद खनन किये गये क्षेत्र का Reclamation किया जायेगा। खनन किये गये क्षेत्र का Reclamation, Over Burdon के वापस mined out pit मे भराव से किया जायेगा। अन्य बचे गढ़ों मे वर्षा जल एकत्रित कर जलाशय मे तब्दील किया जायेगा।

इस खदान मे अन्य स्रोतों से होने वाले विपरीत पर्यावरणीय समाघातो के न्यूनीकरण/ रोकथाम के लिए ई. आई. ए. रिपोर्ट मे निम्न उपाय सुझाये गये है।

- खदान मे वेट ड्रिलिंग की जाएगी। इस प्रकार की ड्रिलिंग मे ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल मशीन मे लगे जल छिड़काव एंव धूल शोषक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
- खदान मे कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग (Controlled Blasting) का उपयोग किया जायेगा। ब्लास्टिंग वाले स्थान को ब्लास्टिंग से पहले गीला कर रखा जायेगा। ब्लास्टिंग दिन के समय की जाएगी।
- भू कम्पन एंव एयर ब्लास्ट लेबल (Air Blast Level) को न्यूनतम स्तर तक रखने के लिए (Non Electric) शोक ट्यूब इनीसिएटिंग सिस्टम जैसे ध्वनि मुक्त ट्रंक लाइन डिले (Noiseless Trunkline Delay) एंव IKON डिजिटल इलैक्ट्रोनिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
- ब्लास्टिंग के दौरान भू कम्पन की नियमित जांच सीसमोग्राफ की मदद से की जाएगी।

- सेकेन्ड्री ब्लास्टिंग के स्थान पर हाइड्रोलिक राक ब्रेकर (Hydrulic Rock Breaker) का उपयोग किया जायेगा।
- लोडिंग के लिए बैकहो (Backhoe) एंव प्राइमरी राक ब्रेकर (Primary Rock Breaker) का उपयोग किया जायेगा।
- सड़को (Haul Road) को स्थाई किया जायेगा एंव जल निकासी के लिए उचित नालियों का प्रबन्ध किया जायेगा।
- सड़को (Haul Road) में वाहनों की गति सीमा 20 किमी./ घण्टा होगी।
- खदान पूर्ण हो चुके गढ़ो (Mined out Pit) में वर्षा जल संग्रहण कर जलाशय में परिवर्तित किया जायेगा।
- पथरिया से जामुल तक जामुल-धमधा रोड के दौनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा।

माडलिंग से सत्यापित होता है कि खदान परिसर में वायु एंव धनि गुणवत्ता का स्तर राष्ट्रीय मानक स्तर में रहेगा। खदान क्षेत्र से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल नहीं निकलेगा। खदान में हानिकारक रसायनों एंव ठोस अपशिष्टों का उपयोग नहीं किया जायेगा। डीजल एंव विस्फोटकों को चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव के दिशा-निर्देशानूसार संग्रहित किया जायेगा।

खदान में धूल उत्सर्जन से श्वास की समस्या, सिलिकोसिस, अधिक धनि से श्ववण बाधिता एंव शारीरिक चोट इत्यादि मुख्य दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। श्रमिकों को खदान में नियुक्ति के दौरान एंव उसके पश्चात जामुल सीमेंट वर्क्स की मेडिकल टीम द्वारा नियमित स्वास्थ जॉच की जायेगी। सभी श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण जैसे नोज मास्क, एयर प्लग, सुरक्षा जूते, हैलमेट, दस्ताने एंव चश्मे इत्यादि की व्यवस्था प्रदान की जायेगी। ड्राइवरों एंव क्लीनरों के लिए विश्राम कक्ष, स्वच्छ पेय जल एंव शौचालये की व्यवस्था पथरिया खदान में उपलब्ध है। श्रमिकों एंव ड्राइवरों के लिए केन्टीन की व्यवस्था पथरिया खदान में उपलब्ध है। पथरिया खदान में उपलब्ध इन सभी सुविधाओं का उपयोग नन्दिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खदान में कार्य करने वाले श्रमिक एंव ड्राइवर भी कर सकेंगे। श्रमिकों के लिए नियमित सेफ्टी / ट्रेनिंग एंव जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। ताकि दुर्घटना एंव संक्रमित बिमारियों से बचा जा सके।

प्रस्तावित खदान परियोजना का पर्यावरण पर कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा किन्तु ई. आई. ए. रिपोर्ट में सुझाये गये सभी रोकथाम एंव सुरक्षा उपायों को अपनाकर विपरीत प्रभावों को कम किया जा सकेंगा। मानसून से पहले खदान क्षेत्र में भू-जल का स्तर 4.6 मी. है। इस परियोजना में खनन कार्य 30 मी. तक प्रस्तावित है, अतः खनन कार्य से भू-जल का स्तर प्रभावित होगा। ब्लास्टिंग एंव खनन कार्य से Fractures / Fissures खुल जायेंगे, जिससे भू-जल बहाव में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त Cracks/joints में द्वितीयक पोरोसिटी (Secondary porosity) के विकास होने से एक्वाफायर की Transmissivity एंव specific yield बढ़ेंगी। खनन कार्य के दौरान खदान पिट में जल (Seepage water) एकत्रित होगा, जिसे पम्प द्वारा निकालकर धूल निर्मूलीकरण के लिये उपयोग किया जायेगा। वर्षा के समय अतिरिक्त जल को नजदीकी नाले में निस्त्राव किया जायेगा।

प्रस्तावित खदान परियोजना से अध्ययन क्षेत्र में प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे। Jamul Cement Works कई सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिससे अध्ययन क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

#### 4 पर्यावरण प्रबोधन योजना

ए.सी.सी. लिमिटेड (ACC) पथरिया लीज-। एंव पथरिया लीज-॥ खदान का संचालन कर रही है, जो कि नन्दनी खुन्दनी चूनापथर खदान से केवल 1 कि.मी. की सीमा में स्थित है। इन खदानों का प्रबंधन पथरिया लीज-। से किया जाता है। आधारभूत सुविधाये जैसे प्रशासन भवन, वर्कशाप, मैगजीन, डीजल एंव लुब्रीकेंट स्टोरेज की व्यवस्था पथरिया लीज-। खदान में उपलब्ध है, जो कि प्रस्तावित नन्दनी खुन्दनी चूनापथर खदान के लिये भी उपयोग की जायेगी। जामुल सीमेंट प्लांट एंव खदानों के नियमित पर्यावरणीय प्रबोधन एंव प्रदूषण नियंत्रण के लिये पर्यावरण प्रबन्धन इकाई जामुल सीमेंट वर्क्स में मौजूद है। यह पर्यावरण प्रबन्धन इकाई प्रस्तावित खदान के पर्यावरणीय प्रबोधन करने के लिये प्रर्याप्त है। यह पर्यावरण प्रबन्धन इकाई निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी।

##### नियमित प्रबोधन

१. खदान परिसर एंव नजदीकी दो गाँवों (नन्दनी खुन्दनी एंव पथरिया) में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की प्रभावी एंव अप्रभावी दिशा में नियमित जॉच करना।
२. खदान में Fugitive emission की नियमित जॉच करना।
३. खदान परिसर एंव आस-पास के गांवों की भूमिगत जल की नियमित जॉच करना। आस-पास के गांवों के भू-जल स्तर का मापन प्रत्येक वर्ष मई एंव नवम्बर के दौरान करना।
४. शिवनाथ नदी, अमनेर नदी एंव आस-पास के नालों की प्रत्येक वर्ष जुन से अक्टूबर के दौरान जॉच करना।
५. खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर, खदान की नन्दनी खुन्दनी गांव से लगने वाली सीमा में हरित पट्टी का विकास एंव देख-रेख करना।

#### **५. अतिरिक्त अध्ययन :-**

**जोखिम न्यूनीकरण उपाय :-** विस्फोटक वैन मे लगने वाली आग एंव विस्फोट दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकती है। खदान मे IBM एंव DHM द्वारा सुझाये गये सभी सुरक्षा उपायो का अनुपालन किया जायेगा। सचल चिकित्सा वाहन एंव प्राथमिक उपचार की व्यवस्था पथरिया खदान मे 24 घंटे उपलब्ध है। खदान मे प्रभावी संचार के साधन जैसे लैप्टप लाइन फोन, मोबाइल फोन इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। भू-कम्पन का मापन किया जायेगा। नजदीकी गँव के भवनो की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए खदान मे ब्लास्टिंग से होने वाले भू-कम्पन का स्तर DGMS द्वारा जारी मानको के अन्दर रखा जायेगा। फ्लाई रॉक (Rock) एक ब्लास्ट तंरंगो को कम करने के लिए अच्छी ब्लास्टिंग तकनीकी का अपयोग किया जायेगा। खदान मे खनन कार्य पूरा होने के बाद जल संग्रहण गढ़ो के चारो ओर तार एंव चेतावनी संकेत लगाये जायेगे।

#### **6. परियोजना के फायदे:-**

छत्तीसगढ़ राज्य मे स्थित यह चूना पत्थर खदान प्राकृतिक संसाधनो के इष्टतम उपयोग से राज्य की राजस्व मे वृद्धि करेगी। इस खदान के संचालन से इस क्षेत्र के बुनियादी ढौंचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस खदान मे 32 व्यक्तियो को प्रत्यक्ष एंव इसके अतिरिक्त चूनापत्थर परिवहन के लिये लगभग 100 वाहन चालको को रोजगार उपलब्ध होगा। खदान मे स्थानीय निवासियो को अनुभव एंव योग्यता के आधार पर रोजगार मे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आस-पास के निवासियो के लिए स्व-रोजगार के कई अन्य अवसर जैसे शिक्षा, विद्युत, प्लम्बर, बढ़ई, बेल्डर, यातायात, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान, वर्कशॉप, सिलाई, नाई, बढ़ई, मोची इत्यादि क्षेत्रो मे उपलब्ध होंगे।

ACC विभिन्न सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो के लिए प्रतिवर्ष रु 5 लाख की राशि प्रस्तावित की है। यह CSR बजट सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो के लिए खर्च की जायेगी। ACC विभिन्न सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो के तहत स्कूल निर्माण, सडक का निर्माण एंव रख-रखाव, वर्षा शालिका निर्माण, पीने के पानी की उचित व्यवस्था एंव नजदीकी गांवो मे शौचालयो का निर्माण, मुफ्त दवा केन्द्र उपलब्ध कराना, मेधावी छात्रो एंव क्रीड़ा मे दक्ष बच्चो को छात्रवृत्ति देना आदि क्षेत्रो मे सहयोग करेगी। ACC स्थानीय व्यक्तियो की आमदनी को बढ़ाने के लिए समय-समय विभिन्न क्षेत्रो जैसे- मशरूम उत्पादन, पत्तल निर्माण, मसाला बनाना एंव पैकिंग, फलो, सब्जियो का उत्पादन एंव चरागाह विकास की ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराये जायेंगे।

## 7. पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना



इस खदान संचालन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए जखरी एवं कारगर पर्यावरण प्रबन्धन योजना बनाई गयी है। आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण प्रबन्धन योजना में उचित एवं कारगर उपाय सुझाये गये हैं।

इस खदान के पर्यावरण प्रबन्धन योजना को क्रियान्वित करने के लिए 30 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इस राशि का उपयोग धूल निर्मूलीकरण उपकरण जैसे जल छिड़काव यंत्र, रेन गन युक्त जल टैंकर एवं अन्य सुविधाओं की खरीददारी के लिये किया जायेगा। वायु एवं ध्वनि मापन उपकरण एवं पर्यावरण प्रबन्धन इकाई पथरिया खदान में मौजूद हैं। श्रमिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उर्जा संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो पथरिया खदान में भविष्य में भी जारी रहेगी। पर्यावरण प्रबन्धन योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

पर्यावरण प्रबन्धन विभाग प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग उपयोग की गई बैटरियो एवं आयल एवं लुब्रिकेंट के निपटान पर नजर रखेगी। उपयोग की गई बैटरिया, स्पैन्ट ऑयल एवं लुब्रीकेन्ट को पुनर्चक्रण के लिए CPCB/SPCB से पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को दिया जायेगा। वृक्षारोपण का कार्य खदान संचालन के पहले दिन से शुरू हो जायेगा जो कि, खदान के पुरे जीवनकाल तक जारी रहेगा। संसाधन संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण एवं सामाजिक वानिकी विकास के कार्य किये जायेंगे। पर्यावरण प्रबन्धन विभाग द्वारा पर्यावरण, श्रमिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जायेगा।

पर्यावरण प्रबन्धन इकाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संम्पर्क में रहेगी। पर्यावरण प्रबन्धन इकाई इस खदान से सम्बन्धित सहमति अर्जी में दिये गये सुझावों का पालन करेगी तथा पर्यावरणीय प्रबोधन के विवरणों को समय समय पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगी। यह इकाई पर्यावरणीय नियमों एवं कानूनों का आजीवन पालन करेगी।

टिप्पणी :-यह हिन्दी कार्यकारी सारांश अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद है। यदि अनुवाद में किसी प्रकार की त्रृटि पाई जाती है तब अंग्रेजी कार्यकारी सारांश को सही माना जाए।



Close View of Nandini Khundini ML Area Showing Coordinates



Photographs Showing Nandini Khundini ML Area